



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 24.06.2022

1-थाना बादलपुर पुलिस द्वारा 02 चोर/लुटेरें गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार, चोरी की मोटरसाइकिल व लूट/चोरी के 05 मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 23.06.2022 को थाना बादलपुर पुलिस द्वारा 02 चोर/लुटेरें 1.दिनेश पुत्र बेगराज निवासी बिस्रौली, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर, 2.विपिन पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम बिस्रौली, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के दुजाना पुलिया से गांव कल्दा की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से छीने/चोरी के 05 मोबाइल फोन, चोरी की मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्रो0 बिना नम्बर प्लेट, 01 अवैध तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस व 01 अवैध चाकू बरामद हुए है।

अभियुक्तों का विवरण:

- 1.दिनेश पुत्र बेगराज निवासी बिस्रौली, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।
- 2.विपिन पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम बिस्रौली, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

- 1.मु0अ0सं0 179/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम दिनेश थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0सं0 180/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम विपिन थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।
- 3.मु0अ0सं0 181/22 धारा 414 भादवि बनाम दिनेश, विपिन थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

- 1.कब्जे से छीने हुए/चोरी के 05 मोबाइल फोन
- 2.चोरी की मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्रो0 बिना नम्बर प्लेट
- 3.01 अवैध तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस
- 4.01 अवैध चाकू



2-थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल से सुबह मार्निंग वॉक पर निकलने वाले लोगो से चेन छिनने वाले विक्की गैंग का वांछित सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल व अवैध हथियार बरामद।

दिनांक 23/06/2022 को थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल से सुबह मार्निंग वॉक पर निकलने वाले लोगो से चेन छिनने वाले विक्की गैंग का वांछित सदस्य राहुल शर्मा पुत्र रंजीत शर्मा निवासी हीरा कॉलोनी, संगम स्वीट्स के पास, सूरजपुर, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर मूल निवासी गाँव-हसनपुर, जहाँगीरपुर, थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के सेक्टर-92 की रेडलाइट, एनएसईजेड वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल अपाचे रजि0नं0 डीएल 13 एसएन 6406 (सम्बन्धित मु0अ0सं0-153/22 धारा-379/411 भादवि थाना नॉलेज पार्क) व 01 अवैध तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस बरामद हुए है।

अभियुक्त थाना सेक्टर-39, नोएडा के मु0अ0सं0-347/22 धारा-392 भादवि में भी वांछित चल रहा था।

अभियुक्त का विवरण:

राहुल शर्मा पुत्र रंजीत शर्मा निवासी हीरा कॉलोनी, संगम स्वीट्स के पास, सूरजपुर, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर मूल निवासी गाँव-हसनपुर, जहाँगीरपुर, थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:

1. मु0अ0सं0-268/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0-153/22 धारा-379/411 भादवि थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0-347/22 धारा-392 भादवि थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

1. चोरी की मोटरसाइकिल अपाचे रजि0नं0 डीएल 13 एसएन 6406 (सम्बन्धित मु0अ0सं0-153/22 धारा-379/411 भादवि थाना नॉलेज पार्क)
2. 01 अवैध तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस



#थाना सेक्टर-20 क्षेत्रांतर्गत आग लगने की सूचना प्राप्त होने पर फायरकर्मियों द्वारा अपनी जान पर खेलकर 13 लोगों की बचाई गयी जान, 02 फायरकर्मी हुए घायल।

पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह द्वारा फायर टीम को 50,000 रुपए के पुरस्कार से पुरुस्कृत किया गया और डीजी मेडल की संस्तुति की गई।

दिनांक 24/06/2022 को सुबह 10:22 बजे थाना सेक्टर-20 क्षेत्रांतर्गत डी-11, सेक्टर-20 में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई जिसपर तत्काल फायर यूनिट द्वारा घटनास्थल पर पहुंचा गया। घटनास्थल पर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि आग डॉक्टर के.सी.सूद के आवास में प्रथम तल पर लगी थी। पीवीसी की पैनलिंग, फाल्स सीलिंग व फर्नीचर के फोम इत्यादि के कारण मकान में भयंकर लपटों के साथ काला और घना धुआं फैला हुआ था। फायर यूनिट द्वारा तत्काल आग बुझाना आरंभ किया गया। उसी समय यह भी ज्ञात हुआ कि भवन के प्रथम और द्वितीय तल पर कुछ लोग फंसे हुए हैं। इन दोनों तलों पर पूरा धुआं भरा हुआ था। ऊपर जाने के लिए सीढ़ी में भी घना धुआं भरा हुआ था, वहाँ ताप भी अत्यधिक था। ऐसी परिस्थितियों में ऊपर जाना असंभव सा प्रतीत हो रहा था, किन्तु फायर सर्विस की टीम ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अदम्य साहस और कर्मठता का परिचय देते हुये ब्रीदिंग ऑपरेटस सेट पहनकर पानी की बौछारों के बीच घने धुएं और ताप के बीच से होकर प्रथम और द्वितीय तल पर पहुंचकर बड़ी तत्परता से दोनों तलों पर आग में फँसे कुल 13 लोगों को आग व धुये से सुरक्षित निकालते हुए, छत के माध्यम से पड़ोस की छत पर सीढ़ी लगाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कुल चार फायर टेंडरों के माध्यम से आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। घटनास्थल पर सीएफओ अरुण कुमार सिंह व थाना प्रभारी फेज-1 मौजूद थे। इस बड़ी अग्निदुर्घटना में डॉ० के.सी. सूद, उनकी पत्नी, बहू, पोती सहित उनके कर्मचारीगण प्रथम और द्वितीय तल पर आग और धुये में फंसे थे। डॉ० के.सी.सूद द्वारा फायर सर्विस टीम की त्वरित कार्यवाही कर सभी को सुरक्षित बचाने की कार्यवाही पर न केवल धन्यवाद दिया गया अपितु भूरि-भूरि प्रशंसा भी की।

अग्निशमन कार्य करते समय फायर सर्विस के दो कर्मचारियो (लीडिंग फायरमैन महिपाल सिंह व फायर मैन निज़ामुद्दीन)की धुये व ताप की वजह से तबियत खराब होने पर उन्हें सेक्टर-26 स्थित अपोलो हॉस्पिटल भेजा गया। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह द्वारा इन कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए इनके साहस भरे कार्य की सराहना की गई और अदम्य साहस का परिचय देने वाले फायरकर्मियों को 50,000 रुपए के पुरस्कार से पुरुस्कृत किया गया एवं डीजी मेडल की संस्तुति की गई। ज्वाइंट सीपी लव कुमार द्वारा अपोलो अस्पताल पहुंचकर भर्ती कर्मचारियों का कुशलक्षेम प्राप्त कर, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गयी।

#पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले लोगों के विरुद्ध अभियान चलाते हुए 796 लोगों के विरुद्ध की गई वैधानिक कार्रवाई।

दिनांक 24/06/2022 को पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार कमिश्नर के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस अधिकारीगण के नेतृत्व में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। अभियान से दौरान सार्वजनिक स्थान पर खुले में शराब पी रहे कुल 796 लोगों के विरुद्ध 290 आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई की गई।